

## Fake Drugs Indore: दवा बाजार में क्राइम ब्रांच का छापा, नकली एंटीबायोटिक दवाईयां जब्त

Fake Drugs Indore: पुलिस ने दवा व्यवसायी संतोष राठौर पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। ड्रग अफसरों की भूमिका भी जांची जा रही है।

Publish Date: | Fri, 24 Sep 2021 07:50 PM (IST)



इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि Fake Drugs Indore। मिलावट-भूमाफियाओं के साथ-साथ पुलिस ने दवा माफियाओं पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। गुरुवार रात क्राइम ब्रांच ने जारोलिया चेंबर में पूर्णिमा मेडिकल एजेंसी पर छापा मार बड़ी मात्रा में नकली एंटीबायोटिक दवाईयां जब्त की। पुलिस ने दवा व्यवसायी संतोष राठौर पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। ड्रग अफसरों की भूमिका भी जांची जा रही है।

संयोगितागंज थाना टीआइ राजीव त्रिपाठी के मुताबिक क्राइम ब्रांच एसपी गुरुप्रसाद पाराशर को सूचना मिली थी कि आरएनटी मार्ग दवा बाजार के पीछे जारोलिया चेंबर में मेसर्स पूर्णिमा मेडिकल एजेंसी नकली एंटीबायोटिक दवाईयां सप्लाई हो रही है। एडीएम अभय वेडेकर और क्राइम ब्रांच ने औषधि विभाग (ड्रग्स) अफसरों के साथ मिलकर मौके पर छापा मारा और PECAF – AZ Tablets व DENSAF- 0 – Tablets व ECAF – AZ Tablets व DENSAF- 0 – Tablets के बाक्स जब्त कर लिए।

एसपी के मुताबिक बॉक्स पर औषधि निर्माता का नाम मेसर्स प्रगति रेमेडिज प्लांट न.143 जी. एस. रोड लिंक उल्लू वाई गोवाहाटी असम लिखा हुआ था। एवं DENSAF- 0 – Tablets के बॉक्स पर मेसर्स दिव्या इंटरप्राइसेस ग्रिन पथ जीएस रोड लिंक उल्लू वाई गोवाहाटी असम लिखा हुआ था। संदेह असम की खाद्य एवं औषधि प्रशासन की वेवसाइट FDA.ASSAM.GOV.IN पर उपलब्ध औषधि निर्माताओं की सूची देखी लेकिन दोनों ही कंपनियों के पते नहीं थे। देर रात पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर सारिका अग्रवाल की शिकायत पर राठौर पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया।

Source: <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/indore-crime-branch-raids-in-drug-market-seized-fake-antibiotics-7054031>